



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन 1930 (श10)
(सं0 पटना 41) पटना, शुक्रवार, 20 फरवरी 2009

बिहार राज्य वित्तीय निगम
फ्रेजर रोड, पटना-1

सूचना

21 जनवरी 2009

सं0 2296-सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 18 मार्च, 2009 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में फ्रेजर रोड, पटना स्थित निगम के मुख्यालय में निम्नलिखित कार्य सम्पादन हेतु होगी :-

- (i) बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 52वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 7 मई, 2008 को 3.30 बजे अपराह्न के पश्चात् निगम के मुख्यालय, फ्रेजर रोड, पटना-1 में सम्पन्न कार्यवाही की सम्पुष्टि ;
- (ii) निगम का वित्तीय वर्ष 2007-2008 का लेखा, उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन, लाभ-हानि का ब्योरा एवं निगम के कार्य-कलापों पर निदेशक पर्षद के प्रतिवेदन को देखना एवं उन पर विचार करना ;
- (iii) राज्य वित्तीय निगम संशोधित अधिनियम, 2000 की धारा 37(i) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों की अनुमोदित पैनल से निगम के वित्तीय वर्ष 2008-09 के लेखा अंकेक्षण हेतु सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति ।
- (iv) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (यथा संशोधित-2000) की धारा 10 की उप धारा (ई) के अंतर्गत अन्य अंशधारकों के प्रतिनिधित्व हेतु बिहार राज्य वित्तीय निगम के निदेशक पर्षद के लिए 2(दो) निदेशकों का चुनाव;
- (v) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मामलों पर विचार ।

टिप्पणियाँ :

1. निगम के निदेशक पर्षद के उम्मीदवार का प्रस्ताव बिहार राज्य वित्तीय निगम साधारण नियमावली की संशोधित नियमावली संख्या-30 से 34 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार, निगम मुख्यालय में वार्षिक

- सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से स्पष्टतः 14 (चौदह) दिन पूर्व अर्थात् 4 मार्च, 2009 तक पहुँच जाना चाहिए ।
2. पर्षद के निदेशक के रूप में किसी भी उम्मीदवार का प्रस्ताव तब ही वैधानिक माना जायेगा जबकि:-
- (अ) वह उम्मीदवार, प्रस्ताव के प्राप्ति की अंतिम तिथि को, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951(यथा संशोधित वर्ष 2000) की धारा 12 के अंतर्गत अनर्हित नहीं कर दिया गया हो या धारा 13 के अंतर्गत निदेशक के पद से हटा नहीं दिया गया हो;
 - (ब) उसकी उम्मीदवारी कम से कम दो अंशधारकों द्वारा प्रस्तावित हो ;
 - (स) प्रस्ताव लिखित रूप में अंशधारकों द्वारा या उनके समविहित हस्ताक्षरित प्राधिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते के यदि वैसे अंशधारकों के द्वारा जो निगम/निकाय हो, के द्वारा उस निगम/निकाय के निदेशकों के संकल्प के द्वारा एवं उस संकल्प की प्रति को सच्ची प्रतिलिपि के रूप में उस बैठक के अध्यक्ष के द्वारा जिसमें यह संकल्प पारित हुआ है या उस निगम/निकाय के सचिव के द्वारा मुख्य/उप मुख्य, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रस्ताव निगम के मुख्य कार्यालय, भेजा जायेगा एवं वह प्रतिलिपि उस निगम/निकाय की ओर से प्रस्ताव के रूप माना जायेगा ;
 - (ड) प्रस्ताव में किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, निबंधक या उप निबंधक या अन्य सरकारी राजपत्रित पदाधिकारी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या निगम के प्रबंधक या उपर के श्रेणी के पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित घोषणा की वह उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं एवं चुनाव के लिए खड़े होने की इच्छुक हो एवं वह अधिनियम 12 के अंतर्गत अनर्हिकृत नहीं किया गया हो या पूर्व में अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हटाया नहीं गया हो ।
3. अंशधारकों के मताधिकार एवं मत देने की प्रक्रिया का संचालन, बिहार राज्य वित्तीय निगम (मताधिकार) नियमावली, 2001 (यथा अद्यतन संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार होगा ।
- 3(i) कोई भी व्यक्तिगत अंशधारक जो 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के इच्छुक हो, उन्हें अपनी पहचान के लिए एवं मताधिकार के निर्धारण के लिए निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषणा-पत्र, 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व निगम मुख्यालय में प्रबन्धक (समन्वय) के पास भरकर जमा करना होगा, यानि इस बैठक के लिए दिनांक 18.3.09 को 10.00 बजे पूर्वाह्न तक जमा कर दिया जाय ।
- 3.(ii) वे अंशधारक जो 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के अधिकारी हैं, वे बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए अपने बदले किसी प्रतिपत्री धारक (प्रॉक्सी) की नियुक्ति करने के भी अधिकारी हैं एवं उस प्रतिपत्री धारक (प्रॉक्सी) को निगम का अंशधारक होना आवश्यक नहीं है ।
- 3.(iii) प्रति-पत्रियों को प्रभावकारी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिपत्री को निगम द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में भरकर निगम के मुख्यालय में प्रबन्धक (समन्वय) के पास कार्यालय अवधि में बैठक की निर्धारित तिथि से स्पष्टतः 7(सात) दिन पूर्व निश्चित रूप से जमा कर दिये जायें, अर्थात् 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 18 मार्च, 2009 हेतु इन्हें दिनांक 11 मार्च, 2009 के 6.00 बजे अपराह्न तक जमा कर दिया जाए ।
- 3(iv) कोई भी व्यक्ति, निगम के किसी भी सामान्य बैठक में किसी कम्पनी अथवा निगम/निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न तो भाग ले सकता है और न ही मतदान कर सकता है, यदि उस व्यक्ति को निगम के विहित प्रपत्र में भरकर उस निगम/निकाय का संकल्प जिससे उस व्यक्ति को सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो, का उस संकल्प की सच्ची प्रतिलिपि उस बैठक के, जिसमें यह संकल्प पारित हुआ है, अध्यक्ष के द्वारा सत्यापित करते हुए निगम के मुख्य कार्यालय में प्रबन्धक (समन्वय) के पास सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से कम

से कम 4(चार) स्पष्ट दिन पूर्व जमा नहीं किया गया हो अर्थात् दिनांक 18 मार्च, 2009 की बैठक के लिए दिनांक 14 मार्च, 2009 के 6.00 बजे तक इसे निर्धारित स्थान पर जमा किया जाना आवश्यक है।

सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति उपरोक्त संकल्प की सत्यापित प्रतिलिपि जमा करने के पश्चात् उस बैठक हेतु जिसके लिए वह नियुक्ति हुई है, वापस नहीं ली जा सकती है।

4. अंशधारक कृपया ध्यान देंगे कि यह प्रावधान, अन्य के अलावा, निगम/निकाय के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक या अन्य पद धारकों पर भी लागू होता है एवं इस प्रावधान के अनुपालन के वगैर वे पदधारक भी बैठक में उपस्थित होने अथवा बैठक में विचारार्थ किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।

5. स्व-घोषणा पत्र, प्रति-पत्री या प्राधिकरण का संकल्प, जो भी जहाँ लागू हो, का विहित प्रपत्र निगम के प्रबन्धक (समन्वय) के कार्यालय से किसी कार्य-दिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

6. यह ध्यान दें कि उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण निगम के सभी सामान्य बैठकों में किया जायेगा तथा हर बैठक के लिए नए सिरे से विशिष्ट स्व-घोषणा-पत्र/प्रति-पत्री/प्राधिकरण के लिए संकल्प की आवश्यकता होगी।

7. अंशधारकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर उपरोक्त बैठक में भाग लेने की कृपा करें एवं पुनः अनुरोध है कि वे कृपया सुनिश्चित करें कि स्व-घोषणा पत्र, प्रति-पत्री या प्राधिकरण के लिए संकल्प, जो भी उनपर लागू हो प्रत्येक के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर ही, विहित प्रपत्र में सम्यक रूप से भरकर एवं सभी तरह से पूर्ण कर निगम के प्रधान कार्यालय में प्रबन्धक (समन्वय) के पास, जमा कर दिया जाय, अन्यथा वे निगम के अंशधारकों की 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने एवं किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।

8. निगम के अंशधारकों का खाता दिनांक 2 मार्च, 2009 से दिनांक 18 मार्च, 2009 (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगा।

9. अंशधारकों से अनुरोध है कि उनके परिवर्तित पते, यदि कोई हो, वित्तीय निगम को सूचित करें।

10. अंशधारकों की सूची निगम मुख्यालय में अंशधारकों द्वारा 10 रूपया (दस रूपया) प्रति सूची की दर पर खरीदने हेतु 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से 3 सप्ताह पूर्व यथा दिनांक 26 फरवरी, 2009 से उपलब्ध होगी।

निदेशक पर्वद के आदेश से,
आलोक कुमार सिन्हा,
प्रबन्ध निदेशक।

The 21st January 2009

No. 2296—Notice is hereby given that the 53rd Annual General meeting of the Shareholders of the Bihar State Financial Corporation will be held on 18.03.2009 at 11.00 A.M. in the Head Office premises of the Corporation at Fraser Road, Patna-1 to transact the following business:-

- (i) To confirm the minutes of the 52nd Annual General Meeting of the Shareholders of the Bihar State Financial Corporation held on 07.05.2008 at 3.30 PM. at the Head Office Premises of the Corporation at Fraser Road, Patna-1;
- (ii) To read and consider the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Corporation for the F.Y.2007-08 together with Auditor's Report thereon and the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation during the year.

- (iii) To appoint, under section 37(i) of the SFCs (Amended) act, 2000, Statutory Auditor for the Corporation out of panel of Auditors approved by Reserve Bank of India for auditing the accounts of the Corporation relating to the F.Y. 2008-09.
- (iv) To elect 2(two) Directors to represent the other shareholders under clause(e) of section 10 of the SFCs Act, 1951 (Amended 2000);
- (v) Any other business with the permission of the Chair.

Note:

1. Proposal of the candidate for directorship should be made in the manner prescribed under amended Regulations No.30 to 34 of the Annual General Regulations of the Corporation and should reach the Head Office of the Corporation before 14(fourteen) clear days before the date fixed for the Annual General Meeting, i.e. not later than 4th March, 2009.
2. No candidate for election as a Director of the Board shall be validly proposed unless:-
 - (a) he is, on the last date for receipt of proposals, not disqualified to be a Director under Section 12 and who has not been removed earlier under Section 13; of SFC's Act, 1951 (Amended 2000);
 - (b) he is proposed by at least two shareholders;
 - (c) the proposal is in writing signed by the shareholders or by their duly constituted attorneys, provided that a proposal by a shareholder who is a body corporate may be made by a resolution of the Directors of the said body corporate and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed or by the Secretary, or the Chief/Vice Chief Executive Officer of that body corporate shall be dispatched to the Head Office of the Corporation and such copy shall be deemed to be a proposal on behalf of such body corporate;
 - (d) the proposal contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Government Gazetted Officer or an officer of Nationalised Bank or of the Corporation not below the rank of Manager, that he accepts the proposal and is willing to stand for election, and that he is not disqualified for election under Section 12 or earlier removed under Section 13.
3. The voting rights of shareholder and manner in which voting rights may be exercised should be in the manner prescribed in the Bihar State Financial Corporation (Voting Rights) Regulations 2001, (As amended up-to-date),
 - 3.(i) An individual shareholder who wishes to attend and vote at the 53rd Annual General meeting shall be required, for the purpose of identification and determining his voting rights, to file Self Declaration duly filled in the proforma prescribed by the Corporation, at least one hour before the commencement of the 53rd Annual General Meeting, with the Manager (Co-ordination) of the Corporation in the Head Office of the Corporation i.e. by 10.00 A.M. on 18.03.2009 for the meeting.
 - 3.(ii) A shareholder entitled to attend and vote at the 53rd Annual General meeting is also entitled to appoint a Proxy to attend and vote in place of himself/herself and such Proxy need not be a shareholder of the Corporation.
 - 3(iii) Proxies in order to be effective must be duly filled in the Proforma prescribed by the Corporation and filed with the Manager (Co-ordination) of the Corporation at the Head Office of the Corporation during office hours, not less than clear

7(seven) days before the date fixed for the meeting i.e. 11th March, 2009 for the 53rd Annual General Meeting scheduled on 18th March, 2009.

- 3.(iv) No person may attend or vote at any meeting of the Corporation as a duly authorized representative of a Body Corporate unless a copy, duly filled in the Proforma prescribed by the Corporation, of a resolution appointing him as a duly authorized representative of the said Body Corporation and certified to be a true copy of the Chairman of the meeting at which it was passed, is filed with the Manager (Co-ordination) of the Corporation at the Head Office of the Corporation not less than 4 (four) days clear days before the date fixed for the meeting i.e. 14th March, 2009 the meeting schedule on 18th March, 2009.

An appointment of a duly authorized representative shall, after the deposit of a certified copy of the resolution as aforesaid, be irrevocable for the meeting for which it is made.

4. Shareholders may kindly note that this applies inter alia also to the Chairman, secretary, Treasurer, Director or any other office bearer of a shareholder Body Corporate and without compliance of this provision even such office holders shall not be authorized to attend the meeting or to vote on any proposal mooted therein.
5. The prescribed Proformae for Self Declaration, Proxy or Resolution for Authorisation as the case may be, may be obtained from the office of the Manager (Co-ordination) of the Corporation, on any working day, during office hours.
6. It may be noted that the aforesaid procedure is to be followed in all General Meetings of the Corporation and that fresh and specific Self Declaration/Proxy/Resolution of authorization is required for every meeting.
7. Shareholders are hereby requested to attend the said meeting on the date and time fixed as aforesaid, and are further requested to ensure that the Self Declaration or Proxy or Resolution of Authorisation, as the case may be in the prescribed Proforma duly filled in and complete in all respects, is deposited in the Corporation Head Office with the Manager (Co-ordination) within the time limit as prescribed in each case, failing which they would not be authorized to attend the 53rd Annual General Meeting of shareholders of the Corporation or cast their votes on proposals mooted therein.
8. The Register of Share-holders of the Corporation will remain closed from 2nd March, 2009 to 18th March, 2009(both day inclusive).
9. The shareholders are requested to notify changes in their addresses, if any, to the Corporation.
10. List of Share-holders will be available at the Head Office of the Corporation for purchase by Share-holders at price of Rs.10/- (Rupees Ten) only per copy at least three weeks before the date fixed for 53rd Annual General Meeting i.e. from 26th February, 2009.

By the order of the Board of Directors,
ALOK KUMAR SINHA,
Managing Director.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 41-571+10-डी0टी0पी0।